



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 50 पटना, बुधवार, 22 अग्रहायण 1939 (श०)
13 दिसम्बर 2017 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डी०ए०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	भाग-9—विज्ञापन
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।
भाग-4—बिहार अधिनियम	पूरक
	पूरक-क
	13-17

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

1 दिसम्बर 2017

सं० ई२-2-062/2010-3980—बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत श्री राजीव रंजन, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, सासाराम अनुमंडल को दिनांक 16.12.2015 से 12.02.2016 तक कुल 59 (उनसठ) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सोहन कुमार ठाकुर, अपर सचिव।

योजना एवं विकास विभाग

अधिसूचना

3 अगस्त 2017

सं० यो०३/३-16/99-4229/यो०वि०—श्री संजय कुमार झा, भूतपूर्व सदस्य बिहार विधान परिषद् को बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना के सदस्य सामाजिक प्रक्षेत्र के पद पर नियुक्ति की तिथि से सरकार के अगले आदेश अथवा 3 वर्ष, जो भी कम हो के लिए मनोनीत किया जाता है।

2. श्री झा को राज्य मंत्री की सभी सुविधाएँ देय होगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
डा० दीपक प्रसाद, प्रधान सचिव।

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचनाएं

27 जून 2017

सं० 1स्था०-62/17-4699/वि०स०।—वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-3ए-2-वे०पु०-09/2016-3590(वि०), दिनांक 24.05.2017 एवं सभा सचिवालय के अधिसूचना संख्या-3630, दिनांक 29.05.2017 के अनुसरण में सभा सचिवालय के प्रशाखा पदाधिकारियों (सहायक सम्बर्ग) का दिनांक-01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतन स्तर में वेतन औपबधिक रूप से संलग्न विवरणी के अनुसार निर्धारित किया जाता है, जिसका वास्तविक वित्तीय लाभ दिनांक 01.04.2017 से देय होगा।

सभा सचिवालय द्वारा संलग्न विवरणी में उल्लिखित प्रशाखा पदाधिकारियों का औपबधिक रूप से पुनरीक्षित वेतन स्तर में निर्धारित वेतन का सत्यापन वित्त विभाग द्वारा कराये जाने के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर निर्धारित वेतन तदनुसार संशोधित कर दिया जाएगा तथा भुगतान की गयी आधिक्य राशि की वसूली कर ली जायेगी एवं कम राशि के भुगतान की भरपाई कर दी जायेगी। वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प में दिये गये निदेशों के अनुरूप अनुमान्य होंगे।

आदेश से,
विमलेन्दु भूषण कुमार, अवर सचिव।

बिहार विधान सभा सचिवालय

क्र० सं०	नाम एवं पदनाम	01.01. 2016 को मौजूदा वेतन बैंड	01.01. 2016 को मौजूदा ग्रेड वेतन	01.01. 2016 को मौजूदा वेतन बैंड में वेतन	01.01. 2016 को प्राप्त मूल वेतन (स्तम्भ 4+5)	01.01. 2016 को प्राप्त मूल वेतन ग 2.57 (फिटमेंट फैक्टर)	01.01. 2016 को प्राप्त ग्रेड वेतन का पे मैट्रिक्स में अनुमान्य वेतन स्तर एवं पुनरीक्षित वेतन	वेतन वृद्धि की तिथि एवं उस तिथि को वर्द्धित वेतन	01.04. 2017 को पुनरीक्षित वेतन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	श्री अरविन्द कुमार मिश्र, प्रशाखा पदाधिकारी	PB-3 15600- 39100/-	6600	24290	30890	79387	वेतन स्तर-11 80,900/-	<u>1.7.2016</u> 83,300/- <u>1.7.2017</u> 85,800/-	83,300/-
2	श्री जय राम सिंह प्रशाखा पदाधिकारी	PB-3 15600- 39100/-	6600	24290	30890	79387	वेतन स्तर-11 80,900/-	<u>1.7.2016</u> 83,300/- <u>1.7.2017</u> 85,800/-	83,300/-
3	श्री अजय कुमार सिन्हा प्रशाखा पदाधिकारी	PB-3 15600- 39100/-	5400	21100	26500	68105	वेतन स्तर-10 69,000/-	<u>1.7.2016</u> 71,100/- <u>1.7.2017</u> 73,200/-	71,100/-
4	श्री मो० शमीम अहमद प्रशाखा पदाधिकारी	PB-2 9300- 34,800/-	5400	21260	26660	68516	वेतन स्तर-9 69,200/-	<u>1.7.2016</u> 71,300/- <u>1.7.2017</u> 73,400/-	71,300/-
5	श्री विवेकानन्द झा प्रशाखा पदाधिकारी	PB-2 9300- 34,800/-	5400	18720	24120	61988	वेतन स्तर-9 63,300/-	<u>1.7.2016</u> 65,200/- <u>1.7.2017</u> 67,200/-	65,200/-
6	श्री मुकेश कुमार प्रशाखा पदाधिकारी	PB-2 9300- 34,800/-	5400	18720	24120	61988	वेतन स्तर-9 63,300/-	<u>1.7.2016</u> 65,200/- <u>1.7.2017</u> 67,200/-	65,200/-
7	श्री विश्वनाथ प्र० मेहता सहायक-सम्प्रति- प्रशाखा पदाधिकारी	PB-2 9300- 34,800/-	4600	18410	23010	59136	वेतन स्तर-7 60,400/-	<u>1.7.2016</u> 62,200/-	-
8	श्री संजय कुमार सहायक-सम्प्रति- प्रशाखा पदाधिकारी	PB-2 9300- 34,800/-	4600	18870	23470	60318	वेतन स्तर-7 60,400/-	<u>1.7.2016</u> 62,200/-	-
9	श्री राज किशोर प्रसाद सहायक-सम्प्रति- प्रशाखा पदाधिकारी	PB-2 9300- 34,800/-	4600	18110	22710	58365	वेतन स्तर-7 58,600/-	<u>1.7.2017</u> 60,400/-	-
10	श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सहायक-सम्प्रति- प्रशाखा पदाधिकारी	PB-2 9300- 34,800/-	4600	17710	22310	57337	वेतन स्तर-7 58,600/-	<u>1.7.2017</u> 60,400/-	-

क्र० सं०	नाम एवं पदनाम	01.01. 2016 को मौजूदा वेतन बैंड	01.01. 2016 को मौजूदा ग्रेड वेतन	01.01. 2016 को मौजूदा वेतन बैंड में वेतन	01.01. 2016 को प्राप्त मूल वेतन (स्तम्भ 4+5)	01.01. 2016 को प्राप्त मूल वेतन ग 2.57 (फिटमेंट फैक्टर)	01.01. 2016 को प्राप्त ग्रेड वेतन का पे मैट्रिक्स में अनुमान्य वेतन स्तर एवं पुनरीक्षित वेतन	वेतन वृद्धि की तिथि एवं उस तिथि को वर्द्धित वेतन	01.04. 2017 को पुनरीक्षित वेतन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	श्री सुनील कुमार सहायक-सम्प्रति-प्रशाखा पदाधिकारी	PB-2 9300-34,800/-	4600	17710	22310	57337	वेतन स्तर-7 58,600/-	1.7.2017 60,400/-	-
12	श्री राम कुमार यादव सहायक-सम्प्रति-प्रशाखा पदाधिकारी	PB-2 9300-34,800/-	4600	13620	18220	46825	वेतन स्तर-7 47,600/-	1.7.2016 49,000/-	-
13	श्री उमा शंकर यादव सहायक-सम्प्रति-प्रशाखा पदाधिकारी	PB-2 9300-34,800/-	4600	13620	18220	46825	वेतन स्तर-7 47,600/-	1.7.2016 49,000/-	-
14	श्री अजय कुमार सिंह सहायक-सम्प्रति-प्रशाखा पदाधिकारी	PB-2 9300-34,800/-	4600	13620	18220	46825	वेतन स्तर-7 47,600/-	1.7.2016 49,000/-	-
15	श्री अजीत प्रसाद सहायक-सम्प्रति-प्रशाखा पदाधिकारी	PB-2 9300-34,800/-	4600	13620	18220	46825	वेतन स्तर-7 47,600/-	1.7.2016 49,000/-	-

क्र० सं०	नाम एवं पदनाम	दिनांक 01.01.2016 के बाद प्रोन्नति/एम.ए.सी.पी. के तहत वेतन उन्नयन की स्थिति में वेतन निर्धारण							अभियुक्ति
		प्रोन्नति / एम.ए.सी. पी. की तिथि एवं उस तिथि को पुनरीक्षित वेतन संरचना (पे मैट्रिक्स) में वेतन स्तर	पुनरीक्षित वेतन संरचना (पे मैट्रिक्स) में मूल वेतन	प्रोन्नति/एम. ए.सी.पी. के फलस्वरूप पुनरीक्षित वेतन संरचना (पे मैट्रिक्स) में वेतन स्तर	स्तम्भ 12 में उल्लिखित मूल वेतन पर एक वेतन वृद्धि के पश्चात् वेतन	स्तम्भ 13 में उल्लिखित वेतन स्तर में स्तम्भ 14 में उल्लिखित वेतन के ठीक आगे का प्रक्रम	वेतन वृद्धि की तिथि एवं उस तिथि को वर्द्धित वेतन	01.04. 2017 को पुनरीक्षित वेतन	
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1	श्री अरविन्द कुमार मिश्र, प्रशाखा पदाधिकारी	-	-	-	-	-	-	-	

क्र० सं०	नाम एवं पदनाम	दिनांक 01.01.2016 के बाद प्रोन्नति/एम.ए.सी.पी. के तहत वेतन उन्नयन की स्थिति में वेतन निर्धारण							अभियुक्ति
		प्रोन्नति / एम.ए.सी. पी. की तिथि एवं उस तिथि को पुनरीक्षित वेतन संरचना (पे मैट्रिक्स) में वेतन स्तर	पुनरीक्षित वेतन संरचना (पे मैट्रिक्स) में मूल वेतन	प्रोन्नति/एम. ए.सी.पी. के फलस्वरूप पुनरीक्षित वेतन संरचना (पे मैट्रिक्स) में वेतन स्तर	स्तम्भ 12 में उल्लिखित मूल वेतन पर एक वेतन वृद्धि के पश्चात् वेतन	स्तम्भ 13 में उल्लिखित वेतन स्तर में स्तम्भ 14 में उल्लिखित वेतन के ठीक आगे का प्रक्रम	वेतन वृद्धि की तिथि एवं उस तिथि को वर्द्धित वेतन	01.04. 2017 को पुनरीक्षित वेतन	
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
2	श्री जय राम सिंह प्रशाखा पदाधिकारी	-	-	-	-	-	-	-	
3	श्री अजय कुमार सिन्हा प्रशाखा पदाधिकारी	-	-	-	-	-	-	-	
4	श्री मो० शमीम अहमद प्रशाखा पदाधिकारी	-	-	-	-	-	-	-	
5	श्री विवेकानन्द झा प्रशाखा पदाधिकारी	-	-	-	-	-	-	-	वित्त विभाग के संकल्प सं-3590, दि०-24.05.17 की कडिका 6(2) के आलोक में दिनांक 01.01. 16 को ग्रेड वेतन 4800 को अपग्रेड कर 5400 ग्रेड वेतन के अनुसार वेतन का निर्धारण
6	श्री मुकेश कुमार प्रशाखा पदाधिकारी	-	-	-	-	-	-	-	वित्त विभाग के संकल्प सं-3590, दि०-24.05.17 की कडिका 6(2) के आलोक में दिनांक 01.01. 16 को ग्रेड वेतन 4800 को अपग्रेड कर 5400 ग्रेड वेतन के अनुसार वेतन का निर्धारण
7	श्री विश्वनाथ प्र० मेहता सहायक-सम्प्रति-प्रशाखा पदाधिकारी	<u>27.07.16</u> अप० वेतन स्तर-7	62,200/-	वेतन स्तर-9	वेतन स्तर-7 64,100/-	वेतन स्तर-9 65,200/-	<u>01.07.17</u> 67,200/-	65,200/-	

क्र० सं०	नाम एवं पदनाम	दिनांक 01.01.2016 के बाद प्रोन्नति/एम.ए.सी.पी. के तहत वेतन उन्नयन की स्थिति में वेतन निर्धारण							अभियुक्ति
		प्रोन्नति / एम.ए.सी. पी. की तिथि एवं उस तिथि को पुनरीक्षित वेतन संरचना (पे मैट्रिक्स) में वेतन स्तर	पुनरीक्षित वेतन संरचना (पे मैट्रिक्स) में मूल वेतन	प्रोन्नति/एम. ए.सी.पी. के फलस्वरूप पुनरीक्षित वेतन संरचना (पे मैट्रिक्स) में वेतन स्तर	स्तम्भ 12 में उल्लिखित मूल वेतन पर एक वेतन वृद्धि के पश्चात् वेतन	स्तम्भ 13 में उल्लिखित वेतन स्तर में स्तम्भ 14 में उल्लिखित वेतन के ठीक आगे का प्रक्रम	वेतन वृद्धि की तिथि एवं उस तिथि को वर्द्धित वेतन	01.04. 2017 को पुनरीक्षित वेतन	
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
8	श्री संजय कुमार सहायक-सम्प्रति-प्रशाखा पदाधिकारी	<u>27.07.16</u> अप० वेतन स्तर-7	62,200/-	वेतन स्तर-9	<u>वेतन</u> <u>स्तर-7</u> 64,100/-	<u>वेतन</u> <u>स्तर-9</u> 65,200/-	<u>01.07.17</u> 67,200/-	65,200/-	
9	श्री राज किशोर प्रसाद सहायक-सम्प्रति-प्रशाखा पदाधिकारी	<u>27.07.16</u> अप० वेतन स्तर-7	60,400/-	वेतन स्तर-9	<u>वेतन</u> <u>स्तर-7</u> 62,200/-	<u>वेतन</u> <u>स्तर-9</u> 63,300/-	<u>01.07.17</u> 65,200/-	63,300/-	
10	श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सहायक-सम्प्रति-प्रशाखा पदाधिकारी	<u>27.07.16</u> अप० वेतन स्तर-7	60,400/-	वेतन स्तर-9	<u>वेतन</u> <u>स्तर-7</u> 62,200/-	<u>वेतन</u> <u>स्तर-9</u> 63,300/-	<u>01.07.17</u> 65,200/-	63,300/-	
11	श्री सुनील कुमार सहायक-सम्प्रति-प्रशाखा पदाधिकारी	<u>27.07.16</u> अप० वेतन स्तर-7	60,400/-	वेतन स्तर-9	<u>वेतन</u> <u>स्तर-7</u> 62,200/-	<u>वेतन</u> <u>स्तर-9</u> 63,300/-	<u>01.07.17</u> 65,200/-	63,300/-	
12	श्री राम कुमार यादव सहायक-सम्प्रति-प्रशाखा पदाधिकारी	<u>27.07.16</u> अप० वेतन स्तर-7	49,000/-	वेतन स्तर-9	<u>वेतन</u> <u>स्तर-7</u> 50,500/-	<u>वेतन</u> <u>स्तर-9</u> 53,100/-	<u>01.07.17</u> 54,700/-	53,100/-	
13	श्री उमा शंकर यादव सहायक-सम्प्रति-प्रशाखा पदाधिकारी	<u>27.07.16</u> अप० वेतन स्तर-7	49,000/-	वेतन स्तर-9	<u>वेतन</u> <u>स्तर-7</u> 50,500/-	<u>वेतन</u> <u>स्तर-9</u> 53,100/-	<u>01.07.17</u> 54,700/-	53,100/-	
14	श्री अजय कुमार सिंह सहायक-सम्प्रति-प्रशाखा पदाधिकारी	<u>30.12.16</u> अप० वेतन स्तर-7	49,000/-	वेतन स्तर-9	<u>वेतन</u> <u>स्तर-7</u> 50,500/-	<u>वेतन</u> <u>स्तर-9</u> 53,100/-	<u>01.07.17</u> 54,700/-	53,100/-	
15	श्री अजीत प्रसाद सहायक-सम्प्रति-प्रशाखा पदाधिकारी	<u>30.12.16</u> अप० वेतन स्तर-7	49,000/-	वेतन स्तर-9	<u>वेतन</u> <u>स्तर-7</u> 50,500/-	<u>वेतन</u> <u>स्तर-9</u> 53,100/-	<u>01.07.17</u> 54,700/-	53,100/-	

27 जून 2017

सं० 1स्था०-68/17-4707/वि०स०।—वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-3ए-2-वे०पु०-09/2016-3590(वि०), दिनांक 24.05.2017 एवं सभा सचिवालय के अधिसूचना संख्या-3630, दिनांक 29.05.2017 के अनुसरण में सभा सचिवालय में कार्यरत प्रशाखा पदाधिकारी (पुस्तकालय) का पुनरीक्षित वेतन स्तर में दिनांक 01.01.2016 से संलग्न विवरणी में औपबधिक रूप से वेतन निर्धारित किया जाता है। निर्धारित वेतन का वास्तविक आर्थिक लाभ दिनांक 01.04.2017 से देय होगा। वेतन के साथ अन्य अनुमान्य भत्ते का भुगतान संकल्प में जारी निदेश के अनुसार देय होगा।

पुनरीक्षित वेतन स्तर में दिनांक 01.01.2016 से औपबधिक रूप से निर्धारित वेतन का वित्त विभाग द्वारा सत्यापन के क्रम में संशोधन किये जाने या भविष्य में वेतन निर्धारण में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली एवं कम भुगतान की गयी राशि की प्रतिपूर्ति कर ली / दी जाएगी।

आदेश से,

विमलेन्दु भूषण कुमार, अवर सचिव।

बिहार विधान सभा सचिवालय

क्र० सं०	नाम एवं पदनाम	01.01. 2016 को मौजूदा वेतन बैंड	01.01. 2016 को मौजूदा ग्रेड वेतन	01.01. 2016 को मौजूदा वेतन बैंड में वेतन	01.01. 2016 को प्राप्त मूल वेतन (स्तम्भ 4+5)	01.01.2016 को प्राप्त मूल वेतन x 2.57 (फिटमेंट फैक्टर)	01.01. 2016 को प्राप्त ग्रेड वेतन का पे मैट्रिक्स में अनुमान्य वेतन स्तर एवं पुनरीक्षित वेतन	वेतन वृद्धि की तिथि एवं उस तिथि को वर्द्धित वेतन	01.04. 2017 को पुनरीक्षित वेतन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	श्री पंकज कुमार सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी (पुस्तकालय)	PB-2 9300-34800/-	4200	19620	23820	61217	62200	1.1.2016 64100	-

क्र० सं०	नाम एवं पदनाम	दिनांक 01.01.2016 के बाद प्रोन्नति/एम.ए.सी.पी. के तहत वेतन उन्नयन की स्थिति में वेतन निर्धारण							अभियुक्ति
		प्रोन्नति / एम.ए.सी.पी. की तिथि एवं उस तिथि को पुनरीक्षित वेतन संरचना (पे मैट्रिक्स) में वेतन स्तर	पुनरीक्षित वेतन संरचना (पे मैट्रिक्स) में मूल वेतन	प्रोन्नति/एम.ए.सी.पी. के फलस्वरूप पुनरीक्षित वेतन संरचना (पे मैट्रिक्स) में वेतन स्तर	स्तम्भ 12 में उल्लिखित मूल वेतन पर एक वेतन वृद्धि के पश्चात् वेतन	स्तम्भ 13 में उल्लिखित वेतन स्तर में स्तम्भ 14 में उल्लिखित वेतन के ठीक आगे का प्रक्रम	वेतन वृद्धि की तिथि एवं उस तिथि को वर्द्धित वेतन	01.04. 2017 को पुनरीक्षित वेतन	
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1	श्री पंकज कुमार सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी (पुस्तकालय)	<u>27.7.2016</u> वेतन स्तर-6	64100	वेतन स्तर-9	<u>वेतन स्तर-6</u> 66000	<u>वेतन स्तर-9</u> 67200	<u>1.7.2017</u> 69200	<u>1.4.2017</u> 67200	

24 जनवरी 2017

सं० 1स्था०-135/15-532/वि०स०।—माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा CWJC No.-17810/2016 में दिनांक 07.12.2016 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में सभा सचिवालय के पत्रांक-1स्था०-135/15-4812-4815, दिनांक 18.10.2016 एवं सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-1स्था०-135/15-4999, दिनांक 27.10.2016 को विखंडित किया जाता है।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
विमलेन्दु भूषण कुमार, अवर सचिव।

16 दिसम्बर 2017

सं० 1स्था०-180/16-5939/वि०स०।—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं०-7/एम०-1-402/ 2000 खंड II-6234, दिनांक 30.06.2006 के अनुसरण में आल इंडिया (लीव ट्रेवल कन्सोसन) रूल्स 1975 के तहत एल०टी०सी० सुविधा के लिए श्री रामश्रेष्ठ राय, सचिव, बिहार विधान सभा जो वेतनमान 70,290-1540-76,450/- रु० में प्रतिमाह 76,450/- रुपये वेतन पाते हैं को परिवार के साथ पटना से नई दिल्ली एवं नई दिल्ली से पटना वापसी की यात्रा के निमित्त दिनांक 05.12.2016 एवं 06.12.2016 को आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति दी जाती है। साथ ही दिनांक 03.12.2016 एवं 04.12.2016 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति दी जाती है।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
दीनानाथ प्रसाद, अवर सचिव।

25 अप्रैल 2017

सं० 1स्था०-252/16-2670/वि०स०।—सभा सचिवालय के ज्ञापांक-962, दिनांक 10.02.2017 एवं ज्ञापांक-1125, दिनांक 17.02.2017 के क्रम में श्री उत्पल को मार्शल के स्थायी पद पर वेतनमान पी०बी०-2-9300-34800/- रुपये + ग्रेड वेतन-5400/- रुपये में प्रतिमाह 20280/- रुपये वेतन एवं अन्य अनुमान्य भत्तों सहित दिनांक 25.04.2017 के पूर्वाह्न से योगदान स्वीकृत करते हुए अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

आदेश से,
दीनानाथ प्रसाद, अवर सचिव।

1 जून 2017

सं० 2स्था०-95/2015-3800/वि०स०।—वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-वै०दा०नि०को०-22/वि०स०-07/13-420/(22), दिनांक-27.04.2017 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248(क) के तहत श्री प्रदीप कुमार राय, उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को दिनांक 17.11.2016 से 29.11.2016 तक उपार्जित अवकाश के उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है।

आदेश से,

दीनानाथ प्रसाद, अवर सचिव।

7 फरवरी 2017

सं० 2स्था०-119/15-831/वि०स०।—सभा सचिवालय के अवर सचिव श्रीमती अनुपमा प्रसाद को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या-वै०दा०नि०को०-22/वि०स०-16/2016-1448(22), पटना, दिनांक 30.12.2016 एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-220(A) के अनुसरण में दिनांक 19.09.2016 से 03.10.2016 तक शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आदेश से,

दीनानाथ प्रसाद, अवर सचिव।

1 जून 2017

सं० 2स्था०-170/2014-3807/वि०स०।—श्री प्रमोद कुमार सिंह, उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-वै०दा०नि०को०-22/वि०स०-06/11-482(22), दिनांक-09.05.2017 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248(क) के तहत दिनांक-29.11.2016 से 09.12.2016 तक उपार्जित अवकाश एवं उक्त सेवा संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक 10.12.2016 से 12.12.2016 तक सार्वजनिक अवकाश के उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है।

आदेश से,

दीनानाथ प्रसाद, अवर सचिव।

5 सितम्बर 2017

सं० 2स्था०-25/14-3929/वि०स०, पटना।—सभा सचिवालय के अधिसूचना संख्या-1150, दिनांक 14.05.2015 के क्रम में श्री सुधीर कुमार गोईत, सेवानिवृत्त प्रशासी पदाधिकारी को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31.12.2014 तक संग्रहित कुल 207 (दो सौ सात) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-630, दिनांक 16.05.2015 द्वारा प्रवृत्त वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3-एम-2-5-1/99 खंड 1829वि०(2), दिनांक 07.04.05 के आलोक में अनुमान्य मूल वेतन 28660/- रु० तथा उस वेतन पर प्रचलित दर पर अनुमान्य महंगाई भत्ता के समतुल्य नगद राशि / अंतर राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आदेश से,

विमलेन्दु भूषण कुमार, अवर सचिव।

31 जुलाई 2017

सं० अ०क०स०-01/2017-5462/वि०स०।—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-2530, दिनांक 31.03.2017 के क्रम में बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-292 ठ (1) के तहत वर्ष 2017-18 के लिए गठित अल्पसंख्यक कल्याण समिति की शेष अवधि के लिए श्री अब्दुल जलील मस्तान, सं०वि०स० एवं श्री डॉ० अब्दुल गफूर, सं०वि०स० को अल्पसंख्यक कल्याण समिति का सदस्य मनोनीत किया जाता है।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,

पाण्डव कुमार सिंह, उप-सचिव।

6 जनवरी 2017

सं० अ०क०सं०-04/2016-55/वि०स०।—सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-अ०क०सं०-04/2016-680/वि०स० दिनांक 04.04.2016 के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि माननीय सदस्य श्री शकील अहमद खान, सं०वि०स० अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए गठित अल्पसंख्यक कल्याण समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
राम श्रेष्ठ राय, सचिव।

31 जुलाई 2017

सं० आवास 02/17-6883/वि०स०।—सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-3344, दिनांक 31.03.2017 के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा ने श्री तेज प्रताप यादव, सं०वि०स० (क्षेत्र संख्या-126) एवं श्री विजय प्रकाश, सं०वि०स० (क्षेत्र संख्या-241) को वर्ष 2017-18 की शेष अवधि के लिए आवास समिति का सदस्य मनोनीत किया है।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
भूषण कुमार झा, उप-सचिव।

31 जुलाई 2017

सं० आ०सं० एवं के०सं०-06/2015-5911/वि०स०।—सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-2334, दिनांक 31.03.2017 के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा ने श्री शिवचन्द्र राम, सं०वि०स०, क्षेत्र संख्या-127, राजा पाकड़ (अ०जा०) को वर्ष 2017-18 के शेष अवधि के लिए गठित बिहार विधान सभा की आन्तरिक संसाधन एवं केन्द्रीय सहायता समिति का सदस्य मनोनीत किया है।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
अनिल कुमार जायसवाल, उप-सचिव।

वाणिज्य—कर विभाग

अधिसूचना

6 दिसम्बर 2017

सं० 6/सं०-4-01/2017-4383/(वा०कर)—बिहार वित्त सेवा के अधोलिखित पदाधिकारियों को वाणिज्य—कर पदाधिकारी (9,300—34,800+ग्रेड पे 5,400 रु०) (पुनरीक्षित वेतन स्तर—9 रु० 53100—167800) के पद पर उनके नाम के सामने कॉलम—5 में अंकित तिथि से सेवा सम्पुष्ट किया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन	जन्म तिथि	सम्पुष्टि की तिथि
1	2	3	4	5
1	श्री आमीर नैय्यर	कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया	05.06.1978	26.09.17
2	श्री मजीद अहमद	कोषागार पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा	01.07.1978	26.09.17

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप-सचिव।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

6 दिसम्बर 2017

सं० ग्रा०वि०-3/स्था०-1-11/17 सं०-341273—निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3999 दिनांक 05.12.17 द्वारा प्राप्त अनापत्ति के आलोक में निम्नांकित तालिका के क्रम संख्या-1 से 7 पर अंकित ग्रामीण विकास पदाधिकारियों (प्रतीक्षारत पदाधिकारियों सहित) को स्तम्भ-6 में अंकित प्रखंडों में ग्रामीण विकास पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित तथा क्रम संख्या-8 से 13 पर ग्रामीण विकास विभाग के पर्यवेक्षकीय संवर्ग के पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए स्तम्भ-6 में अंकित प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्त किया जाता है:-

क्र. सं.	अनु-क्रमांक/ ID No.	पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	पूर्व पदस्थापन स्थान	नव पदस्थापन प्रखंड का नाम	जिला का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	129092	श्री अनुराग आदित्य	मुजफ्फरपुर	प्रतीक्षारत	डंडखोरा	कटिहार
2	188643	श्री रधुनन्दन आनंद	बांका	प्रतीक्षारत	रंगराचौक	भागलपुर
3	108962	श्रीमती प्रियंका	भोजपुर	प्रतीक्षारत	गोपालपुर	भागलपुर
4	212137	श्रीमती मोनालिशा प्रिदर्शनी	कैमूर	अधिसूचित ग्रामीण विकास पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, आरा सदर	जलालगढ़	पूर्णियां
5	200448	श्री सुशील कुमार	खगडिया	ग्रामीण विकास पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मरौना, सुपौल	नौबतपुर	पटना
6	208266	श्री सुदर्शन कुमार	पटना	अधिसूचित ग्रामीण विकास पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पिपरिया, लखीसराय	महनार	वैशाली
7	170985	श्री सूरज कुमार सिंह	उत्तर प्रदेश	अधिसूचित ग्रामीण विकास पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जलालगढ़, पूर्णियां	पकडीदयाल	पूर्वी चम्पारण

क्र. सं.	अनु-क्रमांक/ ID No.	पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	पूर्व पदस्थापन स्थान	नव पदस्थापन प्रखंड का नाम	जिला का नाम
1	2	3	4	5	6	7
8	RDD/ 000852	श्री अरशद रजा खान	वैशाली	प्रसार पदाधिकारी सह सहायक परियोजना पदाधिकारी, लखीसराय	पिपरिया	लखीसराय
9	RDD/ 001117	श्री रामजी प्रसाद	भोजपुर	प्रसार पदाधिकारी सह सहायक परियोजना पदाधिकारी, गया	मधुबन	पूर्वी चम्पारण
10	RDD/ 001434	श्री विजय कुमार सिंह	बक्सर	प्रसार पदाधिकारी सह सहायक परियोजना पदाधिकारी, कैमूर	सिधवलिया	गोपालगंज
11	RDD/ 000171	श्रीमती प्रमिला कुमारी	मधेपुरा	महिला प्रसार पदाधिकारी सह सहायक परियोजना पदाधिकारी, बेगूसराय	चकिया	पूर्वी चम्पारण
12	RDD/ 001831	श्रीमती मणिमाला कुमारी	सहरसा	महिला प्रसार पदाधिकारी सह सहायक परियोजना पदाधिकारी, मधेपुरा	मरौना	सुपौल
13	RDD/ 001380	श्रीमती शंभा कुमारी	भागलपुर	कार्यपालक दंडाधिकारी, शेखपुरा	कटरा	मुजफ्फरपुर

2. उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या-13 पर अंकित पदाधिकारी की सेवा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से वापस लेते हुए पदस्थापित किया गया है।

3. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से प्रभावी होगा। इस अधिसूचना एवं इससे पूर्व में निर्गत अधिसूचनाओं में यदि कोई विरोधाभाष हो तो वर्तमान में निर्गत अधिसूचना ही प्रभावी होगी और एतद् द्वारा संबंधित पूर्व की अधिसूचना इस हद तक विलोपित मानी जायेगी।

4. नव पदस्थापित/अधिसूचित पदाधिकारी अपने नवपदस्थापन स्थान पर/ प्रखंड में योगदान देना तथा प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा योगदान एवं प्रभार प्रतिवेदन अविलम्ब विभागीय ईमेल (rlrsec-bih@nic.in) पर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

5. नव पदस्थापित पदाधिकारी के माह दिसम्बर, 2017 के वेतनादि का भुगतान नव पदस्थापित स्थान से किया जायेगा।

6. नवपदस्थापित पदाधिकारी अपना Digital Signature 'Register' करने का कार्य State MIS Nodal Officer के माध्यम से करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राधा किशोर झा, विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 39—571+15-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

14 जुलाई 2017

सं० 1स्था०-229/16-5198/वि०स०।—सभा सचिवालय के ज्ञापांक-1 स्था०-227/16-2162, दिनांक 12 जुलाई, 2016 द्वारा निर्लेखित अवर सचिव, श्री मणिकान्त निराला पर सभा सचिवालय के ज्ञापांक-1 स्था०-227/16-2177-81, दिनांक 12.07.2016 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही के प्रतिवेदन में जाँच पदाधिकारी द्वारा दोषी पाये जाने एवं सभा सचिवालय के ज्ञापांक-1 स्था०-229/16-25(स), दिनांक 19.06.2017 द्वारा पूछे गये द्वितीय कारण पृच्छा के प्रतिउत्तर पर सम्यक् विचारोपरांत श्री मणिकान्त निराला, अवर सचिव (निर्लेखित) को “पंक्ति में अवनत (पंक्तिच्युति)” अर्थात् निम्नतर पद यथा प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर पंक्तिच्युत किये जाने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

(2) श्री मणिकान्त निराला, अवर सचिव (निर्लेखित) के विरुद्ध निर्लेखन आदेश को भैकेट करते हुए उन्हें पुनः उपरोक्त दण्डानुसार अर्थात् प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर बहाल (Reinstate) किया जाता है।

(3) इनके निर्लेखन अवधि दिनांक 12.07.2016 से आदेश निर्गत होने की तिथि तक उन्हें जीवन यापन भत्ता के अतिरिक्त और कुछ भी राशि नहीं दिया जाएगा।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
दीनानाथ प्रसाद, अवर सचिव।

अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

कार्यालय आदेश

26 जुलाई 2017

सं० प्र०-3/सी० 7-11/2017-133—बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के पत्रांक-1752/आ० दिनांक 27.05.2015 द्वारा विज्ञापन संख्या-1906/2006 के तहत कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर पूर्व प्रेषित अनुशंसित सूची में से 22 अभ्यर्थियों की अनुशंसा वापस ली गयी थी। उक्त सूची में पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को आवंटित अभ्यर्थी श्री राजीव रंजन वर्मा शामिल थे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के उक्त पत्र के संदर्भ में जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त पत्र संख्या-3080 दिनांक 01.07.2015 के आलोक में पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-193-सह-पठित ज्ञापांक-4484 (ई०) दिनांक 20.07.2015 द्वारा श्री राजीव रंजन वर्मा, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या-1, मुजफ्फरपुर की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया था।

2. उक्त विभागीय आदेश के विरुद्ध श्री राजीव रंजन वर्मा एवं अन्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी०डब्लू०जे०सी० संख्या-11850/2015 दायर की गई। उक्त मामले में दिनांक 07.12.2015 को पारित न्यायादेश द्वारा श्री वर्मा की नियुक्ति रद्द करने संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया गया। इसके उपरान्त विभाग द्वारा श्री वर्मा की पुनर्नियुक्ति हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना से अनुशंसा के बिन्दु पर मार्गदर्शन की मांग की गयी। तत्पश्चात् बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एल०पी०ए० संख्या-844/2016 दायर की गई। उक्त मामले में पारित न्यायादेश द्वारा पुनः उक्त विभागीय आदेश को रद्द करते हुए अनुशंसा वापस लिये गये अभ्यर्थियों से परीक्षा में कदाचार के बिन्दु पर आयोग/राज्य सरकार को कारण-पृच्छा मांगते हुए संशोधित परीक्षाफल जारी करने का आदेश दिया गया।

3. इसी बीच सी०डब्लू०जे०सी० संख्या-11850/2015 से उद्भूत एम०जे०सी० संख्या-2097/2016 राजीव रंजन वर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में पारित न्यायादेश दिनांक 24.05.2017 द्वारा श्री वर्मा को विभाग में कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर पुनर्नियुक्त करते हुए पृच्छा कर सुनवाई का आदेश विभाग को प्राप्त हुआ है। इस आलोक में विभागीय पत्रांक-5030 (एस) दिनांक 08.06.2017, पत्रांक-5444 (एस) दिनांक 21.06.2017 एवं पत्रांक-4031 (ई०) दिनांक 12.07.2017 द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना से श्री वर्मा की पुनर्नियुक्ति हेतु उनकी अनुशंसा के बिन्दु पर लिये गये निर्णय से अवगत कराने का अनुरोध किया गया।

4. बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के पत्रांक-1617/आ० दिनांक 22.07.2017 द्वारा श्री राजीव रंजन वर्मा, भूतपूर्व कनीय अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना की पुनर्नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई है।

अतः श्री राजीव रंजन वर्मा को बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर तत्काल प्रभाव से पुनर्नियुक्त किया जाता है।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,

(ह०) अस्पष्ट, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

सं० सी०/सी०आई०मिस-207/97 खण्ड-1—8487

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

संकल्प

20 सितम्बर 2017

विषय:-वर्ष 1989-90 के भागलपुर साम्प्रदायिक दंगा में मृत/लापता व्यक्तियों के आश्रित बीबी जुलेखा, पति-स्व० मो० मोईन, ग्राम-लौगांय, अंचल-गोराडीह, जिला-भागलपुर को अनुग्रह अनुदान देने हेतु साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग (सम्प्रति आपदा प्रबंधन विभाग) के पत्रांक-293-सा०आ०, दिनांक 29.12.1989 की कंडिका-1 के नोट को शिथिल करने के संबंध में।

जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक-143/दं०से०, दिनांक 19.12.2016 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर वाद सी०डब्लू०जे०सी० सं०-13123/2013 में पारित न्यायादेश के आलोक में वर्ष 1989-90 के भागलपुर साम्प्रदायिक दंगा में मृत/लापता व्यक्तियों के आश्रित बीबी जुलेखा को अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय/मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई थी।

2. जिला पदाधिकारी, भागलपुर के उपर्युक्त पत्र एवं इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा वाद सी०डब्लू०जे०सी० सं०-13123/2013 में पारित न्यायादेश के आलोक में वर्ष-1989-90 के भागलपुर साम्प्रदायिक दंगा में मृत/लापता व्यक्तियों के आश्रित बीबी जुलेखा, पति-स्व० मो० मोईन, ग्राम-लौगांय, अंचल-गोराडीह, जिला-भागलपुर के परिवार के मारे गए सात सदस्यों में से अनुग्रह अनुदान हेतु अस्वीकृत तीन सदस्यों के मामलों में भी राज्य सहायता कोष से अनुग्रह अनुदान दिए जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग (सम्प्रति आपदा प्रबंधन विभाग) के पत्रांक- 293-सा०आ०, दिनांक 29.12.1989 की कंडिका-1 के नोट- (i), (ii) एवं (iii) को शिथिल करने का निर्णय लिया गया है।

3. उक्त शिथिलीकरण के उपरान्त वर्ष 1989-90 के भागलपुर साम्प्रदायिक दंगों में बीबी जुलेखा, पति-स्व० मो० मोईन, ग्राम-लौगांय, अंचल-गोराडीह, जिला-भागलपुर के परिवार के मारे गए सात सदस्यों में से अनुग्रह अनुदान हेतु अस्वीकृत तीन सदस्यों (प) मो० रसीद, पिता-स्व० रईस (पप) मो० मोकिम, पिता-स्व० रईस एवं (पपप) बीबी मीनू पिता स्व० मो० रईस के मामलों में भी राज्य सहायता कोष से अनुग्रह अनुदान दिया जा सकेगा।

4. यह शिथिलीकरण अपवाद स्वरूप केवल उपर्युक्त प्रासंगिक मामले के लिए है और यह पूर्वोदाहरण नहीं होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विमलेश कुमार झा, संयुक्त सचिव।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचनाएं

30 नवम्बर 2017

सं० ग्रा०वि०-14(नि०को०)वैशाली-42/2017-340283/ग्रा०वि०—श्री प्रमोद कुमार, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, महनार प्रखंड, जिला- वैशाली को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित धावा दल द्वारा दिनांक 04.09.2017 को परिवादी श्री सोनू पासवान से ₹30,000.00 (तीस हजार रुपये) रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। रिश्वत लेने के आरोप में उनके विरुद्ध निगरानी थाना कांड संख्या- 070/2017 दिनांक 04.09.2017, धारा- 7/8/13(2)-सह-पठित धारा-13(1)(डी) भ०नि०अधि० 1988 दर्ज होने की सूचना निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के ज्ञापांक- 2625/अप०शा० दिनांक 13.09.2017 से प्राप्त हुई जो सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 12703 दिनांक 05.10.2017 के माध्यम से प्राप्त हुआ।

2. अतएव बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम- 9(2)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में कारा निरोध की तिथि 04.09.2017 के प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। चूँकि श्री कुमार द्वारा दिनांक 06.11.2017 को कारा से मुक्त होने की सूचना देते हुए दिनांक- 07.11.2017 को विभाग में योगदान समर्पित किया गया है। अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम- 9(3)(i) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री कुमार को निलम्बनमुक्त करते हुए दिनांक 07.11.2017 के प्रभाव से योगदान स्वीकृत किया जाता है।

3. कारा अवधि के निलम्बन अवधि में श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

4. उपरोक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिंह, संयुक्त सचिव।

30 नवम्बर 2017

सं० ग्रा०वि०-14(नि०को०)वैशाली-42/2017-340284/ग्रा०वि०—श्री प्रमोद कुमार, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, महनार प्रखंड, जिला- वैशाली को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित धावा दल द्वारा दिनांक 04.09.2017 को परिवादी श्री सोनू पासवान से ₹30,000.00 (तीस हजार रुपये) रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। रिश्वत लेने के आरोप में उनके विरुद्ध निगरानी थाना कांड संख्या- 070/2017 दिनांक 04.09.2017, धारा- 7/8/13(2)-सह-पठित धारा- 13(1)(डी) भ०नि०अधि० 1988 दर्ज होने की सूचना निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के ज्ञापांक- 2625/अप०शा० दिनांक 13.09.2017 से प्राप्त हुई जो सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 12703 दिनांक 05.10.2017 के माध्यम से प्राप्त हुआ।

2. तत्पश्चात् बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम- 9(2)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में कारा निरोध की तिथि 04.09.2017 के प्रभाव से निलम्बित किया गया, परंतु श्री कुमार द्वारा दिनांक 06.11.2017 को कारा से मुक्त होने की सूचना देते हुए दिनांक 07.11.2017 को विभाग में योगदान समर्पित किया गया। अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम- 9(3)(i) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री कुमार को विभागीय अधिसूचना संख्या- 340283 दिनांक 30.11.2017 द्वारा निलम्बनमुक्त करते हुए दिनांक 07.11.2017 के प्रभाव से योगदान स्वीकृत किया गया।

3. चूँकि श्री कुमार के विरुद्ध गम्भीर कदाचार का आरोप एवं निगरानी थाना काण्ड सं०-70/2017 दिनांक 04.09.2017 दर्ज है, अतः श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 2005 के नियम- 9(1)(ग) के तहत योगदान स्वीकृति तिथि दिनांक 07.11.2017 के प्रभाव से पुनः निलम्बित किया जाता है।

4. निलम्बन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय मुजफ्फरपुर समाहरणालय, विकास शाखा निर्धारित किया जाता है।

5. निलम्बन अवधि में श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

6. उपरोक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिंह, संयुक्त सचिव।

सं० (सं०सं०-ग्रा०वि०-14(मुं०)खग०-02/2017)—340324

ग्रामीण विकास विभाग**संकल्प****1 दिसम्बर 2017**

श्री मनोज कुमार अग्रवाल, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, मानसी, खगड़िया सम्प्रति ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाराहाट, बाँका के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक- 136 दिनांक- 07.03.2017 द्वारा पितृत्व अवकाश स्वीकृत कराये बिना आवेदन देकर मुख्यालय छोड़ने, पितृत्व अवकाश की अवधि में प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य संपादित करने, मानव श्रृंखला आयोजन के दौरान लापरवाही बरतने, गलत स्पष्टीकरण सम्प्रेषित कर वरीय पदाधिकारी को गुमराह करने, मुख्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, मुख्यालय में आवासन नहीं रखने, ओडिया क्लिप के द्वारा प्रयोग की जा रही भाषा के अवांछित होने, जनप्रतिनिधि प्रमुख के साथ उनकी पत्नी के जन्मदिवस पर स्टेज पर नृत्य करने, समारोह के दौरान गोली चलाने, नियम का उल्लंघन कर सात सौ लोगों को 10 (दस) किलो अनाज उपलब्ध कराने तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के रूप में नियमानुसार कार्य नहीं करने आदि के लिए आरोप प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा के साथ विभाग को प्राप्त कराया गया।

2) श्री अग्रवाल से उक्त आरोपों पर स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। प्राप्त स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, खगड़िया का मंतव्य प्राप्त किया गया। जिला पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा श्री अग्रवाल के विरुद्ध गठित आरोप, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, खगड़िया से प्राप्त मंतव्य के सम्यक् समीक्षोपरान्त विषयगत मामले की वृहद् जाँच हेतु श्री अग्रवाल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

3) तद्आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम- 17(2) के तहत इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री अनुराग कौशल सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा नामित पदाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4) श्री मनोज कुमार अग्रवाल, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, मानसी, खगड़िया सम्प्रति ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाराहाट, बाँका से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव में अपना पक्ष रखते हुए जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी सम्बन्धित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिंह, संयुक्त सचिव।

सं० (सं०सं०-ग्रा०वि०-14(मुं०)खग०-02/2015)—340835

ग्रामीण विकास विभाग**संकल्प****5 दिसम्बर 2017**

सुश्री रीना कुमारी, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, खगड़िया सदर सम्प्रति ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुरैनी, मधेपुरा के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक- 1155 दिनांक- 11.08.2016 द्वारा इन्दिरा आवास योजना अन्तर्गत वित्तीय 2014-15 में जाँच पदाधिकारी को संशोधित चयन सूची उपलब्ध कराने की जगह त्रुटिपूर्ण सूची उपलब्ध कराने, योग्य लाभार्थियों को अयोग्य तथा ग्राम में उपस्थित लाभार्थियों को चयन सूची में बाहर दिखाने, सूची में हेरा-फेरी करने, इन्दिरा आवास चयन हेतु दिये गये मार्गदर्शिका का उल्लंघन कर मनमाने ढंग से दुरुपयोग कर व्यापक अनियमितता बरतने आदि के लिए आरोप प्रपत्र 'क' गठित कर विभाग को प्राप्त कराया गया।

2) सुश्री कुमारी को उक्त आरोपों पर विभाग में स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया। किन्तु विभाग के स्तर से कई पत्रों के बावजूद भी उनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। यह विभागीय आदेश की अवहेलना एवं उनकी अनुशासनहीनता द्योतक है। जिला पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा सुश्री कुमारी के विरुद्ध गठित आरोप एवं विभाग के आदेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता की वृहद् जाँच हेतु सुश्री कुमारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

3) तद्आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम- 17(2) के तहत इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री विनोद कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा नामित पदाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4) सुश्री रीना कुमारी, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, खगड़िया सदर सम्प्रति ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुरैनी, मधेपुरा से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव में अपना पक्ष रखते हुए जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी सम्बन्धित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिंह, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 39—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>